

रासीसर में मारा छापा, Rs.2000 के नकली नोटों की दो गड़्डियां, दो प्रिंटर जब्त किए

Bikaner News - नोखा | गुजरात के पालनपुर में गत 14 अप्रैल को जांच के दौरान निजी बस में मिले नकली नोट के साथ गिरफ्तार व्यक्तियों की...

Hindi News | Local | Rajasthan | Bikaner

Nokha News rajasthan news in the receipt of the raid two gates of fake notes of rs2000 two printers seized
Apr 29, 2019, 09:21 AM IST

नोखा | गुजरात के पालनपुर में गत 14 अप्रैल को जांच के दौरान निजी बस में मिले नकली नोट के साथ गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर गुजरात पुलिस ने नोखा के रासीसर गांव में रविवार को छापा मारा।

नोखा थाने के एसआई रमेश ने बताया कि पालनपुर पश्चिम थाना के एसआई पीके झाला के नेतृत्व में गुजरात पुलिस नोखा आई। उनके साथ रासीसर के शिवलाल कुम्हार के घर छापा मारा। जहां शिवलाल तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को दो-दो हजार रुपए के नकली नोटों की गड़्डियां, दो प्रिंटर मिल गए। जिससे गुजरात पुलिस जब्त कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने शिवलाल के पिता रामचंद्र को पाबंद किया कि जहां भी आपका पुत्र है उसे जांच के लिए तुरंत पालनपुर थाने में पेश करें। ज्ञात रहे लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर पश्चिम थाना टीम ने 14 अप्रैल को आबू रोड की ओर से आ रही निजी बस में यात्रियों के सामान की जांच की। इस दौरान एक यात्री के थैले में दो हजार रुपए के नोट चार अलग-अलग सीरिज के 2165 नोट यानि 43 लाख 30 हजार रुपए जब्त हुए। खाजूवाला के दंतोर निवासी पूनमचंद, ओमप्रकाश शर्मा से पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कहा कि नोखा से अज्ञात व्यक्ति ने सूरत निवासी नरेंद्र कैलाश चंद्र गुरावा को देने के लिए दिए थे।

पुलिस ने पूनमचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की तो पूनमचंद के बताए अनुसार गुजरात पुलिस रासीसर पहुंची व शिवलाल कुम्हार के घर छापा मारा। परंतु गुजरात पुलिस को शिवलाल नहीं मिला।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/bikaner/news/rajasthan-news-in-the-receipt-of-the-raid-two-gates-of-fake-notes-of-rs2000-two-printers-seized-092108-4447463.html>